

Class 9 Hindi Important Questions - दो बैलों की कथा

1. लेखक ने गधे का छोटा भाई किसे और क्यों कहा है?

उत्तर

लेखक ने गधे का छोटा भाई बैल को कहा है क्योंकि मूर्खता और सरल-सहनशीलता का गुण उसमें गधे से कम है। बैल भी गधे की तरह ही सीधा और सहनशील होता है लेकिन कभी-कभी असंतुष्ट होने पर क्रोधित होकर रोष व्यक्त करता है तथा हमला भी कर देता है।

2. प्रस्तुत पाठ में दिए गए उदाहरण के साथ हीरा-मोती की सच्ची मित्रता का वर्णन करें।

उत्तर

हीरा और मोती दो बैल थे, जो आपस में बिना बोले एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। दोनों एक-दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी-कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। जिस वक्त वे दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो हर वक्त उनकी यही कोशिश होती थी ज्यादा-से-ज्यादा बोझ उनकी गर्दन पर रहे। दोनों एक साथ खाते थे और एक ही साथ बैठते थे।

3. झूरी के ससुराल से भागने पर बैलों के साथ उसने कैसा व्यवहार किया?

उत्तर

जब दोनों बैल झूरी के ससुराल से भागकर वापस अपने मालिक के पास आए तो उसने बहुत ही प्यार से उन्हें गले लगा लिया। उसके मन में अपने बैलों के प्रति बहुत स्नेह भरा था। वह बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और उनका प्रेमालिंगन किया।

4. दोनों बैल कसाई की कैद से कैसे मुक्त हुए?

उत्तर

नीलामी के बाद जैसे ही दोनों बैल कसाई के साथ खेत के रास्ते से आगे बढ़े, उन्हें वह जगह जानी-पहचानी लगी। वही खेत, वही बाग, वही गाँव सब परिचित-से लगने लगे। यह अनुभव होते ही उनकी चाल प्रतिक्षण तेज क्यों होने लगी। दोनों दौड़कर अपने स्थान पर आ गए। कसाई भी उनके पीछे दौड़कर आया और उन पर अपना हक जमाने लगा। झूरी ने अपने बैलों को देखकर उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि वे उसके बैल हैं। जैसे ही कसाई

जबरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा, मोती ने सींग चलाया। मोती ने फिर पीछा किया तो कसाई भाग गया। इस प्रकार दोनों उसके कैद से आजाद हुए।